

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 589]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 21, शक 1936

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

शुद्धि-पत्र

नगरपालिक निगम इन्दौर के 85 वार्डों का विस्तार (परिसीमन) का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 को किया गया है, जिसके पृष्ठ क्रमांक 1112(17) के वार्ड क्रमांक 48 "गीताभवन" में कॉलम नं. 3 के रिक्त स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

“बड़ी ग्वालटोली, सेवासरदार नगर, गीता नगर, लालाराम नगर, ग्रेटर तिरूपति, पदमावती कालोनी, दूरसंचार कालोनी, डाककुंज, नवरत्नबाग, मनोरमागंज गली नं. 1 से 6, कैलाश पार्क, दीपशिखा अपार्टमेंट, राजगढ़ कोठी, मिश्रविहार, देवी इंदिरा नगर, वनमंडल कार्यालय परिसर, शिवमंगल नगर, अलंकार पाईट, सुयश हॉस्पिटल, गौहर कम्पाउंड, शांति नगर, टेलीफोन कालोनी, पी.डब्ल्यू क्वार्टर, बख्तावर रामनगर सेक्टर ई व एफ पलासिया थाना परिसर, ब्लॉक नं. 02, ओल्ड पलासिया मूलथान अपार्टमेंट बड़वानी प्लाजा, ओल्ड पलासिया ग्रेटर कैलाश हास्पिटल वाली गली, एवं चतुःसीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय दुबे, आयुक्त.